


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2488]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 26, 2013/कार्तिक 4, 1935

No. 2488]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 26, 2013/KARTIKA 4, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2013

का.आ. 3253(अ).—यतः मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य में एक निजी संगठन है, ने राजस्थान राज्य में ग्राम कलवारा, भाम्बोरिया, बगरू खुर्द एवं झी तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में **इंजीनियरिंग और संबंधित उद्योगों (पूर्व में छोटे इंजीनियरिंग मोटर वाहन/मोटर वाहन घटकों सहित)** के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 जनवरी, 2009 एवं 28 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 37(अ) एवं 341 (अ) में 103.1775 हेक्टेयर एवं 119.4955 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और, यतः मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 16.42 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करने और 4.404 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 16.42 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित और 4.404 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 222.6730 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

4542 GI/2013

(1)

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कलवारा	9	0.18
2	कलवारा	136	0.24
3	कलवारा	149	0.02
4	कलवारा	152/2950	3.70
5	कलवारा	153	0.14
6	कलवारा	154	1.12
7	कलवारा	161	0.53
8	कलवारा	162	0.16
9	कलवारा	163	0.02
10	कलवारा	164	0.05
11	कलवारा	165	0.03
12	कलवारा	166	2.35
13	कलवारा	167	0.05
14	कलवारा	168	0.17
15	कलवारा	169	0.14
16	कलवारा	170	0.05
17	कलवारा	171	0.07
18	कलवारा	174	0.25
19	कलवारा	175	0.41
20	कलवारा	17	0.28
21	कलवारा	177	0.19
22	कलवारा	178	0.72
23	कलवारा	179	0.04
24	कलवारा	180	0.47
25	कलवारा	251	0.14
26	कलवारा	252	0.35
27	कलवारा	253	0.51
28	कलवारा	255	0.32
29	कलवारा	256	0.19
30	कलवारा	257	0.07
31	कलवारा	258	0.50
32	कलवारा	259	0.49
33	कलवारा	260	0.16
34	कलवारा	261	0.03
35	कलवारा	262	0.80
36	कलवारा	263	0.48
37	कलवारा	152	0.64
38	कलवारा	254	0.36
		कुल	16.42 हेक्टेयर

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम.सं.	मूल अधिसूचना एवं दिनांक	गाँव	सर्वे नम्बर	मूल रूप से अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सर्वे नम्बर का संशोधित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	28.02.2012	कलवारा	2	0.87	0.080	0.790
2	28.02.2012	कलवारा	5	0.07	0.005	0.065
3	28.02.2012	कलवारा	12	1.58	0.560	1.020
4	28.02.2012	कलवारा	129	1.00	1.000	0.000
5	06.01.2009	कलवारा	134	0.17	0.020	0.150
6	28.02.2012	कलवारा	135	0.02	0.020	0.000
7	28.02.2012	कलवारा	140	0.43	0.430	0.000
8	28.02.2012	कलवारा	147	0.99	0.990	0.000
9	28.02.2012	कलवारा	148	0.10	0.040	0.060
10	28.02.2012	कलवारा	149	0.10	0.100	0.000
11	28.02.2012	कलवारा	150	0.23	0.040	0.190
12	28.02.2012	कलवारा	157	0.54	0.540	0.000
13	28.02.2012	कलवारा	158	0.32	0.320	0.000
14	28.02.2012	कलवारा	172	0.72	0.050	0.670
15	28.02.2012 & 06.01.2009	कलवारा	182	1.26	0.140	1.120
16	06.01.2009	कलवारा	314	0.12	0.008	0.112
17	06.01.2009	कलवारा	315	0.03	0.001	0.029
18	06.01.2009	कलवारा	316	0.13	0.010	0.120
19	28.02.2012	कलवारा	139/2903	0.05	0.050	0.000
				कुल	4.404 हेक्टेयर	
अतिरिक्त एवं अनधिसूचित के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्र.					222.6730 हेक्टेयर	

[फा. सं. एफ. 1/280/2007-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2013

S.O. 3253(E).—WHEREAS, M/s. Mahindra World City (Jaipur), a private company, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for engineering and related industries (formerly, light engineering including automotive/automotive components) at Kalwara, Bhamboriya, Bagru Khurd and Jhai village, tehsil- Sanganer, District Jaipur, in the state of Rajasthan ;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified the areas of 103.1775 hectares and 119.4955 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O 37 (E) dated 6th January, 2009 and S.O 341(E) dated 28th February, 2012 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Mahindra World City (Jaipur), has now proposed to include an area of 16.42 hectares and decrease an area of area of 4.404 hectares from the above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 16.42 hectares and de notifies an area of 4.404 hectares, thereby making total area of the Special Economic Zone as **222.6730 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

SI No	Name of the Village	Khasra Number	Area in hectares
1	Kalwara	9	0.18
2	Kalwara	136	0.24
3	Kalwara	149	0.02
4	Kalwara	152/2950	3.70
5	Kalwara	153	0.14
6	Kalwara	154	1.12
7	Kalwara	161	0.53
8	Kalwara	162	0.16
9	Kalwara	163	0.02
10	Kalwara	164	0.05
11	Kalwara	165	0.03
12	Kalwara	166	2.35
13	Kalwara	167	0.05
14	Kalwara	168	0.17
15	Kalwara	169	0.14
16	Kalwara	170	0.05
17	Kalwara	171	0.07
18	Kalwara	174	0.25
19	Kalwara	175	0.41
20	Kalwara	17	0.28
21	Kalwara	177	0.19
22	Kalwara	178	0.72
23	Kalwara	179	0.04
24	Kalwara	180	0.47
25	Kalwara	251	0.14
26	Kalwara	252	0.35
27	Kalwara	253	0.51
28	Kalwara	255	0.32
29	Kalwara	256	0.19
30	Kalwara	257	0.07
31	Kalwara	258	0.50
32	Kalwara	259	0.49
33	Kalwara	260	0.16
34	Kalwara	261	0.03
35	Kalwara	262	0.80

36	Kalwara	263	0.48
37	Kalwara	152	0.64
38	Kalwara	254	0.36
		Total	16.42 Hectares

TABLE FOR DE NOTIFICATION

Sl. No	Date of original notification	Village	Survey No.	Area originally Notified	Area being de notified	Revised area of the Sy. No.
1	28.02.2012	Kalwara	2	0.87	0.080	0.790
2	28.02.2012	Kalwara	5	0.07	0.005	0.065
3	28.02.2012	Kalwara	12	1.58	0.560	1.020
4	28.02.2012	Kalwara	129	1.00	1.000	0.000
5	06.01.2009	Kalwara	134	0.17	0.020	0.150
6	28.02.2012	Kalwara	135	0.02	0.020	0.000
7	28.02.2012	Kalwara	140	0.43	0.430	0.000
8	28.02.2012	Kalwara	147	0.99	0.990	0.000
9	28.02.2012	Kalwara	148	0.10	0.040	0.060
10	28.02.2012	Kalwara	149	0.10	0.100	0.000
11	28.02.2012	Kalwara	150	0.23	0.040	0.190
12	28.02.2012	Kalwara	157	0.54	0.540	0.000
13	28.02.2012	Kalwara	158	0.32	0.320	0.000
14	28.02.2012	Kalwara	172	0.72	0.050	0.670
15	28.02.2012 & 06.01.2009	Kalwara	182	1.26	0.140	1.120
16	06.01.2009	Kalwara	314	0.12	0.008	0.112
17	06.01.2009	Kalwara	315	0.03	0.001	0.029
18	06.01.2009	Kalwara	316	0.13	0.010	0.120
19	28.02.2012	Kalwara	139/2903	0.05	0.050	0.000
				Total	4.404	
Grand total of the SEZ area after addition and de notification					222.6730 hectares	

[F. No. F. 1/280/2007-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.